



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, फरवरी 24—मार्च 1, 2008, शनिवार/फाल्गुन 5—फाल्गुन 11, 1929  
No. 4] NEW DELHI, FEBRUARY 24—MARCH 1, 2008, SATURDAY/PHALGUNA 5—PHALGUNA 11, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(सिविलियन कार्मिक निदेशालय)

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 09.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, नौसेना, प्रशासनिक अधिकारी (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, प्रशासनिक अधिकारी (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौसेना, प्रशासनिक अधिकारी (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती नियम, 2005 में -

(क) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ 13 की मद 3 में "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और

कोष्ठकों के स्थान पर "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ख) प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी I और प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी II से संबंधित क्रम संख्यांक 3 और 4 के सामने, स्तंभ 13 में, मद 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा ; अर्थात् :-

"1. ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन) नौ सेना मुख्यालय-अध्यक्ष"

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 32 तारीख 21 अप्रैल 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(DIRECTORATE OF CIVILIAN PERSONNEL)

New Delhi, the 19th February, 2008

S.R.O. 09.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President

hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Navy, Administrative Officers (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2005, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Administrative Officers Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Navy, Administrative Officers Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2005 —

- (a) against serial number 1, relating to the post of Chief Administrative Officer, in column 13, in item 3, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted;
- (b) against serial number 3 and 4, relating to the post of Administrative Officer Grade-I and Administrative Officer Grade-II, in column 13 for the item 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"1. Senior Principal Director (Civilians) Naval Headquarters—Chairman."

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Apptts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**FootNote :** The principal rules were published *vide* number SRO 32 dated the 21st April, 2005.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 10.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, नौसेना, सम्पादक अनुवादक (रूसी/अंग्रेजी) समूह "क" भर्ती नियम 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, सम्पादक अनुवादक (रूसी/अंग्रेजी) समूह "क" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 हैं।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौ सेना, सम्पादक अनुवादक (रूसी/अंग्रेजी) समूह "क" पद भर्ती नियम, 1993 की अनुसूची में, सम्पादक अनुवादक (रूसी/अंग्रेजी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 13 में, "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 25 तारीख 25 मार्च 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 10.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Navy, Editor Translator (Russian/English) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 1993, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Editor Translator (Russian/English) Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Navy, Editor Translator (Russian/English) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 1993, against serial number 3 relating to the post of Editor Translator (Russian/English), in column 13, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted;

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Apptts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**FootNote :** The principal rules were published *vide* number SRO 25 dated the 25th March, 1993.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 11.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, नौसेना, ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) समूह "क" भर्ती नियम 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) समूह "क" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 हैं।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौ सेना, ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) समूह "क" पद भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची में, ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 13 में, "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 32 तारीख 26 फरवरी 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 11.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Navy, Senior Translation Officer (Russian/English) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2004, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Senior Translation Officer (Russian/English) Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Navy, Senior Translation Officer (Russian/English) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2004, against serial number 1 relating to the post of Senior Translation Officer (Russian/English), in column 13, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted;

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)/07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published *vide* number SRO 32 dated the 26th February, 2004.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 12.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना, समूह "क" और समूह "ख" नौसेना (सिविलियन राजपत्रित भंडार अधिकारी पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, समूह "क" और समूह "ख" नौसेना (सिविलियन राजपत्रित भंडार अधिकारी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौ सेना, समूह "क" और समूह "ख" नौसेना (सिविलियन राजपत्रित भंडार अधिकारी पद) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में—

- (क) स्तम्भ 13 में ज्येष्ठ निदेशक और निदेशक पदों के सामने, "सहायक कार्मिक प्रमुख" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

**पाद टिप्पण :** मूल नियम का.नि.आ. 47 तारीख 05 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 12.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy, Group 'A' and Group 'B' Navy (Civilian Gazetted Store Officers Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Group 'A' and Group 'B' Navy (Civilian Gazetted Store Officers Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Navy, Group 'A' and Group 'B' Navy (Civilian Gazetted Store Officers Posts) Recruitment Rules, 2002 —

- (a) against the posts of Senior Director and Director, in column 13, for the words and brackets "(Assistant Chief of Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilian)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)/07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published *vide* number SRO 47 dated the 05th February, 2002.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 13.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, नौसेना, अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) समूह "ख" पद भर्ती नियम 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) समूह "ख" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौ सेना, अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में, अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ 13 में, "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

**पाद टिप्पण :** मूल नियम का.नि.आ. 40 तारीख 06 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 13.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Indian Navy, Translation Officer (Russian/English) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2006, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Translation Officer (Russian/English) Group 'B' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Indian Navy, Translation Officer (Russian/English) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2006, against serial number 1 relating to the post of Translation Officer (Russian/English), in column 13, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)/07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**FootNote :** The principal rules were published vide number SRO 40 dated the 06th March, 2006.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 14.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, नौसेना, जलराशि अधिकारी (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, नौसेना जलराशि अधिकारी (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौ सेना, जलराशि अधिकारी (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में, मुख्य सिविल जलराशि और उप मुख्य सिविल जलराशि अधिकारी से संबंधित क्रम संख्यांक 1 और 2 के सामने स्तम्भ 13 की मद (4) में "सहायक मुख्य कार्मिक (सिविलियन)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

- (क) सिविल जलराशि अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 से सामने, स्तम्भ 13 में मद(1) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1. ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन) नौसेना मुख्यालय—अध्यक्ष"

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

**पाद टिप्पण :** मूल नियम का.नि.आ. 118 तारीख 07 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 14.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Naval Hydrographic Officers (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2006, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Naval Hydrographic Officers (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Naval Hydrographic Officers (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2006, against serial numbers 1 and 2 relating to the posts of Chief Civil Hydrographic Officer and Deputy Chief Civil Hydrographic Officer, in column 13, in item (4), for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted;

- (a) against serial number 4, relating to the posts of Civil Hydrographic Officer, in column 13, for the item (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Senior Principal Director (Civilians) Naval Headquarters—Chairman."

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)/07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**FootNote :** The principal rules were published vide number SRO 118 dated the 07th September, 2006.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 15.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना, (सिविलियन शिक्षा अधिकारी) समूह "ख" राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, (सिविलियन शिक्षा अधिकारी) समूह "ख" राजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौसेना, (सिविलियन शिक्षा अधिकारी) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में, सिविलियन शिक्षा अधिकारी के पद से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ 13 में, "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 282 तारीख 12 दिसम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 15.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy, (Civilian Educational Officer) Group 'B' Gazetted Recruitment Rules, 2002, namely:—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, (Civilian Educational Officer) Group 'B' Gazetted Post Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Navy (Civilian Educational officer) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2002, against serial number 1, relating to the post of Civilian Educational Officer, in column 13, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide number SRO 282 dated 12th December, 2006.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 16.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नौसेना आयुध सेवा (समूह "क") भर्ती नियम 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, आयुध सेवा (समूह "क") पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, आयुध सेवा (समूह "क") पद भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची में;

579 45/08-2

(क) स्तम्भ 13 की मद 3 में वर्णित कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी (कृत्यिक), कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी (अकृत्यिक), ज्येष्ठ समयमान श्रेणी और कनिष्ठ समयमान श्रेणी पदों से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 3, 4, 5 और 6 के सामने "सहायक कार्मिक प्रमुख" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक सिविलियन" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 21 तारीख 22 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 16.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Naval, Armament Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2004, namely:—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Naval Armament Service (Group 'A') Post Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Indian Naval Armament Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2004,

- (a) against serial numbers 3, 4, 5 and 6 relating to the posts Junior Administrative Grade (Functional), Junior Administrative Grade (Non-Functional), Senior Time Scale and Junior Time Scale appearing in column 13, in item 3, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide number SRO 21 dated the 22nd January, 2004.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 17.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (नौसेना वायुयान यार्ड) भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (नौसेना वायुयान यार्ड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौसेना, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (नौसेना वायुयान यार्ड) भर्ती नियम 2004 की अनुसूची में, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (नौसेना वायुयान यार्ड) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तम्भ 13 में, "रियर एडमिरल/सहायक कार्मिक प्रमुख की पद का अधिकारी" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 16 तारीख 09 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 17.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy Civilian Technical Officers (Naval Aircraft Yard) Recruitment Rules, 2004, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy Civilian Technical Officers (Naval Aircraft Yard) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Navy Civilian Technical Officers (Naval Aircraft Yard) Recruitment Rules, 2004, against serial number 2, relating to the posts of Civilian Technical Officer (Naval Aircraft Yard), in column 13, for the words and brackets "Officer of the rank of Rear Admiral/Assistant Chief of Personnel" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published *vide* number SRO 16 dated 09th January, 2004.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 18.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नौसेना, (ज्येष्ठ निजी सचिव) समूह "ख" राजपत्रित भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, (ज्येष्ठ निजी सचिव) समूह "ख" राजपत्रित भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, (ज्येष्ठ निजी सचिव) समूह "ख" राजपत्रित भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में, (ज्येष्ठ निजी सचिव) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ 13 में, "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 23 तारीख 09 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 18.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Navy (Senior Private Secretary) Group 'B' Gazetted Recruitment Rules, 2005, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy (Senior Private Secretary) Group 'B' Gazetted Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Indian Navy (Senior Private Secretary) Group 'B' Gazetted Recruitment Rules, 2005, against number 1, relating to the post of Senior Private Secretary, in column 13, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published *vide* number SRO 23 dated 09th March, 2005.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 19.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना, डिजाइन अधिकारी (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, डिजाइन अधिकारी (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौसेना, डिजाइन अधिकारी (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में, प्रधान डिजाइन अधिकारी (इंजीनियरी), प्रधान डिजाइन अधिकारी (विद्युत),

प्रधान डिजाइन अधिकारी (निर्माण), ज्येष्ठ डिजाइन श्रेणी-1 (इंजीनियरी), ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-1 (विद्युत), ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-1 (निर्माण), ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-2 (इंजीनियरी), ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-2 (विद्युत), ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-2 (निर्माण), कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी (इंजीनियरी), कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी (विद्युत) और कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी (निर्माण) पदों से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 और 12 के सामने स्तम्भ 13 की मद 3 में, "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक वहाँ रखे जाएंगे जहाँ-2 वे आते हैं।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 246 तारीख 21 नवम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा उनमें का.नि.आ. 100 तारीख 4 अगस्त, 2006 द्वारा संशोधन किया गया था।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 19.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Navy Design Officer (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy Design Officer (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Navy Design Officer (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2002, against serial numbers 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 and 12 relating to the posts Principal Design Officer (Engg.), Principal Design Officer (Elect.), Principal Design Officer (Construction), Senior Design Officer Grade-I (Engg.), Senior Design Officer Grade-I (Electrical), Senior Design Officer Grade-I (Construction), Senior Design Officer Grade-II (Engg.), Senior Design Officer Grade-II (Electrical), Senior Design Officer Grade-II (Construction), Junior Design Officer (Engg.), Junior Design Officer (Electrical) and Junior Design Officer (Construction), in column 13, in item 3, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted wherever they appear.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Apptts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

FootNote : The principal rules were published *vide*

number SRO 246 dated the 21st November, 2002 and subsequently amended *vide* number SRO 100 dated 04th August, 2006.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 20.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना, मुख्य प्रारूपकार (सिविल, यांत्रिकी, विद्युत, निर्माण, आयुध और मानचित्र, समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, मुख्य प्रारूपकार (सिविल, यांत्रिकी, विद्युत, निर्माण, आयुध और मानचित्र, समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 हैं।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्य प्रारूपकार (सिविल, यांत्रिकी, विद्युत, निर्माण, आयुध और मानचित्र समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में, मुख्य नक्शानवीस (सिविल), मुख्य नक्शानवीस (यांत्रिकी), मुख्य नक्शानवीस (विद्युत), मुख्य नक्शानवीस (निर्माण), मुख्य नक्शानवीस (आयुध) और मुख्य नक्शानवीस (मानचित्रण) के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 1,2,3,4,5 और 6 के सामने स्तम्भ 13 की मद 1 में, "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 135 तारीख 30 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 20.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy Chief Draughtsman (Civil, Mechanical, Electrical, Construction, Armament and Cartographic, Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1999, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy Chief Draughtsman (Civil, Mechanical, Electrical, Construction, Armament and Cartographic, Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Navy Chief Draughtsman (Civil, Mechanical, Electrical, Construction, Armament and Cartographic, Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1999, against serial numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 relating to the posts Chief Draughtsman

(Civil), Chief Draughtsman (Mechanical), Chief Draughtsman (Electrical), Chief Draughtsman (Construction), Chief Draughtsman (Armament) and Chief Draughtsman (Cartographic) in the column 13, in item 1, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published *vide* number SRO 135 dated 30th July, 1999.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 21.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नौसेना, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 की अनुसूची में :—

- (क) तकनीकी अधिकारी और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद के सम्बन्ध में क्रम संख्यांक 1 और 2 के सामने, स्तम्भ 13 की मद 1 में "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- (ख) तकनीकी सहायक (ई डी पी) और तकनीकी सहायक (इंजीनियरी/विद्युत/निर्माण/आयुध/पी.पी.सी./संकर्म) के पद के सम्बन्ध में क्रम संख्यांक 3 और 4 के सामने, स्तम्भ 13 की मद 1 में "सहायक कार्मिक प्रमुख" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

**पाद टिप्पण :** मूल नियम का.नि.आ. 95 तारीख 15 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 21.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Navy

Civilian Technical Officers (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2003, namely :—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy Civilian Technical Officers (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Indian Navy Civilian Technical Officers (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2003 :—

- (a) against serial numbers 1 and 2 for the posts of Technical Officer and Junior Technical Officer, in column 13, in item 3, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.
- (b) against serial numbers 3 and 4 for the posts of Technical Assistant (EDP) and Technical Assistant (Engineering/Electrical/Construction/Weapon/PP&C/Works), in column 13, in item 1, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published *vide* number SRO 95 dated 15th July, 2003.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 22.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नौसेना, (सिविलियन राजपत्रित वैज्ञानिक अधिकारी पद) भर्ती नियम 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, (सिविलियन राजपत्रित वैज्ञानिक अधिकारी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौसेना, (सिविलियन राजपत्रित वैज्ञानिक अधिकारी पद) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II, और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 1, 2, 3 और 4 के सामने, स्तम्भ 13 की मद



3 में, "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 89 तारीख 3 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। और उनमें तत्पश्चात का.नि.आ. 65 तारीख 15 मई, 2006 द्वारा संशोधन किया गया था।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 22.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy (Civilian Gazetted Scientific Officers Posts) Recruitment Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy (Civilian Gazetted Scientific Officers Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Navy (Civilian Gazetted Scientific Officers Posts) Recruitment Rules, 2006, against serial numbers 1, 2, 3, and 4 relating to the posts of Principal Scientific Officer, Senior Scientific Officer Grade-I, Senior Scientific Officer Grade-II and Junior Scientific Officer in column 13, in item 3, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Apptts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published *vide* number SRO 89 dated the 3rd July 2003 and subsequently amended *vide* number SRO 65 dated 15th May, 2006.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 23.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना, समूह 'क' राजपत्रित पद (ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, समूह 'क' राजपत्रित पद (ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 हैं।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौसेना, समूह 'क' राजपत्रित पद, (ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम 1995 की अनुसूची में, ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी पद से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तम्भ 13 की मद 1 में, "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 234 तारीख 31 अक्टूबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 23.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy Group 'A' Gazetted Posts (Senior Technical Officer) Recruitment Rules, 1995, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy Group 'A' Gazetted Posts (Senior Technical Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Navy Group 'A' Gazetted Posts (Senior Technical Officer) Recruitment Rules, 1995, against serial number 1, relating to the post of Senior Technical Officer, in column 13, item number 1, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Apptts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published *vide* number SRO 234 dated the 31st October, 1995.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

**का.नि.आ. 24.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नौसेना, प्रधान डिजाइन अधिकारी श्रेणी-1 (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, प्रधान डिजाइन अधिकारी श्रेणी-1 भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 हैं।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, प्रधान डिजाइन अधिकारी श्रेणी-1 की अनुसूची में, प्रधान डिजाइन अधिकारी श्रेणी-1 (संनिर्माण)

के पद से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तम्भ 13 की मद 3 में "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन कार्मिक)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 102 तारीख 22 जून, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 24.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Navy, Principal Design Officer Grade-I (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy, Principal Design Officer Grade-I Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Indian Navy, Principal Design Officer Grade-I Recruitment Rules, 2004, against serial number 1, relating to the post of Principal Design Officer Grade-I (Construction), in column 13, in item 3, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilians)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide number SRO 102 dated the 22nd June, 2004.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 25.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नौसेना, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, नौसेना, सिविलियन तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में, मुख्य तकनीकी अधिकारी तथा ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी के पदों से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 1 और 2 के सामने, स्तम्भ 13 की मद 3 में "सहायक कार्मिक प्रमुख (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठकों के स्थान पर "ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी.पी.(जी)/1458/आर आर/83/डी (नियुक्ति)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 94 तारीख 15 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th February, 2008

**S.R.O. 25.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Navy, Civilian Technical Officers (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy, Civilian Technical officers (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Indian Navy, Civilian Technical Officers (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2003, against serial numbers 1 and 2 relating to the posts Chief Technical officer and Senior Technical Officer, in column 13, in item number 3, for the words and brackets "Assistant Chief of Personnel (Civilians)" the words and brackets "Senior Principal Director (Civilian)" shall be substituted.

[File No. CP(G)/1458/RR/83/D(Appts)07]

C. J. JOSE, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide number SRO 94 dated the 15th July, 2003.